

रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

P.O. 500
Km. 30
Depth. 250
CPB-220

सं. 28]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2004/माघ 1, 1925

No. 28]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2004/MAGHA 1, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2004

सं. 7/सीमा-शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 58(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (कक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/97-सीमा-शुल्क (गै.टै.) दिनांक 2 अप्रैल, 1997 में और आगे संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"13	पश्चिमी बंगाल	फाल्टा विशेष आर्थिक जोन	आयतित माल की उतराई और निर्यातित माल का लदान"

[फा. सं. 305/38/2001-एफ.टी.टी.]

वी.के.जो., अवर सचिव

टिप्पणी :— मूल अधिसूचना सं. 12/97-सीमा-शुल्क (गै.टै.), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 193(अ), दिनांक 2 अप्रैल, 1997 के तहत प्रकाशित की गई थी और अन्तिम बार इसका संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में सा.का.नि. 4(अ), दिनांक 2 जनवरी, 2004 के तहत प्रकाशित अधिसूचना सं. 1/2004-सीमा-शुल्क (गै.टै.) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2004

No. 7/CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 58(E).—In exercise of powers conferred by clause (aa) of Sub-section (1), of Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Board hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997, namely :—

In the Table to the said notification, after S.No. 12 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"13	West Bengal	FALTA Special Economic Zone	Unloading of imported goods and loading of exported goods"

[F. No. 305/38/2001-FTT]

V. KEZO, Under Secy.

Note :— The principal notification No. 12/97-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd April, 1997, was published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 193(E), dated the 2nd April, 1997 and was last amended *vide* notification No. 1/2004-CUSTOMS (N.T.), dated the 2nd January, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* G.S.R. 4(E), dated 2nd January, 2004.